

Scientific Benefits of DreamSleep® Yognidra for Students:

- Release stress
तनाव (स्ट्रेस) दूर करे
- Induce deep physiological rest and relaxation
गहरा शारीरिक आराम एवं विश्रान्ति
- Increase learning capacity
सिखने की क्षमता में वृद्धि
- Enable students to assimilate knowledge spontaneously
विद्यार्थियों को सतत ज्ञान को आत्मसात करने में सक्षम बनाना
- Increase memory function
स्मृति (यादशक्ति) की कार्यक्षमता में वृद्धि
- Integrates brain hemispheres (right & left)
मस्तिष्क गोलार्ध को एकीकृत करना (दायां और बायां – मस्तिष्क)
- Knowledge gained without effort & reawakened without blockage
(means without burden)
बिना प्रयास के ज्ञान प्राप्ति एवं ज्ञान रूकावट के बिना फिर से जागृत होना (यानी बिना भार के)
- Develops recall power & photographic memory
स्मरण शक्ति (यादशक्ति) एवं फोटोग्राफिक मेमरी को विकसित करना
- Increase ability to speak & learn foreign languages
विदेशी भाषा बोलने और सिखने की क्षमता में बढ़ावा

- Increase capacity of receptivity & attention
ग्रहणशीलता एवं ध्यान देने की क्षमता में वृद्धि
- Awakens the joy of learning
सिखने के आनंद की जागृति
- Increase focusing for self-discipline & Inner discovery
आत्म-अनुशासन और आंतरिक खोज के लिए ध्यान केन्द्रित करने में बढ़ावा
- Increase psychic receptivity & extrasensory perception (ESP)
मानसिक ग्रहणशीलता एवं अतिसंवेदक धारणामें बढ़ोतरी
- Gives future health & well-being
भविष्य का स्वास्थ्य एवं सुखकारी देना
- Preserves and enhance natural abilities
प्राकृतिक क्षमताओं का संरक्षण और संवर्धन
- Develops creative faculties
आंतरिक रचनात्मक शक्ति का विकास
- Relieves from headaches
सिर दर्द से राहत
- Relieves from Anxiety
चिंता से राहत
- Free from Unnecessary Fear/Phobia
अनावश्यक भय से मुक्ति
- Good Sleep
अच्छी नींद




- More self-assurance
अधिक आत्म-निर्भरता
- More creative development
अधिक रचनात्मक विकास
- Increase capacity to expresses more easily
अधिक आसानी से व्यक्त करने की क्षमता का विकास
- Social & Cultural Well-being
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुखाकारी
- Development of the power of 'Intelligent Quotient(IQ), Emotional Quotient(EQ) & Spiritual Quotient(SQ)'
बौद्धिक श्रेष्ठता, भावनात्मक श्रेष्ठता और आध्यात्मिक श्रेष्ठता की शक्ति का विकास
- Increase the capacity of thinking, Analyzing & Establishing the realistic goals, vision and dreams of real life and holistic living
वास्तविक जीवन और समग्र जीवन के यथार्थवादी लक्ष्यों, दृष्टि और सपनों का विश्लेषण, विश्लेषण और स्थापना की क्षमता बढ़ाना
- Increase the capacity to do work in right direction of the established goals, vision and realistic dreams with presence of mind (Consciousness) and with exactness
स्थापित लक्ष्यों, विज्ञान और वास्तविक सपनों की सही दिशा में मन(चित्त) की उपस्थिति में और सटीकता के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना

Plus some other benefits...

इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी...

Some images of DreamSleep Practice:





Yujom Life Science
'Vignān Jindagi Kā'

DreamSleep® Yognidrasana®
Dur Kare Stress, Rakhe Relax®

For Registration* or More Information;

Contact:

Yujom Life Science, Surat, Gujarat, India.

Vigyāni Lalitkumar Kachhadiya

(D.Ph., DIY, YIC, BA & MA in Yoga Education, MA in MHS)

Founder, Inventor & Researcher – the Kalpdroom Science System

WhatsApp: 96389 79999

Email: info@yujom.com

Website: www.yujom.com

*Terms & Conditions Apply while registration.

*Disclaimers Apply while registration.

*Policies Apply while registration.